



BAPPA SRI NARAIN VOCATIONAL POST GRADUATE COLLEGE (KKV)

STATION ROAD, CHARBAGH, LUCKNOW, UTTAR PRADESH-226001

PROF. RAMESH DHAR DWIVEDI
PRINCIPAL

EMAIL: bsnvpgc1954@gmail.com

MOB. NO.: 0522-2635513

DATE: 23/01/2023

बी एस एन वी पीजी कॉलेज चारबाग लखनऊ में बैडमिंटन प्रतियोगिता का समापन

आदरणीय अध्यक्ष बी0एस0एन0वी0 इंस्टिट्यूट के निर्देशों के अनुपालन में दिनांक 18-01-2023 से दिनांक 23-01-2023 तक बप्पा श्री नारायण वोकेशनल स्नातकोत्तर महाविद्यालय लखनऊ में बैडमिंटन प्रतियोगिता 2022-23 (गर्ल्स एवं बॉयज) संपन्न हुई। प्रतियोगिता में 63 छात्र-छात्राओं ने प्रतिभाग किया। गर्ल्स प्रतियोगिता में छात्रा सुश्री झलक ने साक्षी सिंह को 21-15 21-12 21-10 से पराजित कर प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया तथा छात्र प्रतियोगिता में आदित्य कुमार वर्मा ने उत्कर्ष द्विवेदी को सीधे सेटों में 21-12 26-24 से पराजित कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्राचार्य प्रोफेसर रमेश धर द्विवेदी ने विजेताओं को ट्रॉफी प्रदान की तथा छात्र-छात्राओं को शिक्षा के साथ-साथ खेलों के महत्व पर भी प्रकाश डाला और सभी के उज्ज्वल भविष्य की शुभकामना दी। प्रतियोगिता के समापन समारोह में प्रोफेसर के0 के0 बाजपेई, प्रोफेसर संजीव शुक्ला, प्रोफेसर राजीव दीक्षित, प्रोफेसर अरविंद कुमार तिवारी, प्रोफेसर वंदना, प्रोफेसर विजय कुमार, डॉ0 प्रणव कुमार मिश्र, डॉ0 राजेश राम, डॉ0 विजय शंकर, श्री लल्लन प्रसाद, श्री स्नेह प्रताप सिंह, डॉ0 मंजुल त्रिवेदी, श्री सुभाष चंद्र, श्री अमृत गोंड, डॉ0 सी0 एम0 शर्मा, डॉ0 उपकार वर्मा, डॉ0 ललित गुप्ता एवं अन्य शिक्षक उपस्थित होकर छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर गोविन्द कृष्णा मिश्र थे तथा संचालन खेल निदेशक श्री कृष्ण चंद्र ने किया। कार्यक्रम के अंत में खेल सचिव श्री सुबोध कुमार अवस्थी जी ने प्रतियोगिता में उपस्थित सभी का आभार प्रकट किया।

सधन्यवाद।







श्री कृष्ण चंद्र
(खेल निदेशक)
शारीरिक शिक्षा विभाग
बीएसएनवी पीजी कॉलेज
चारबाग, लखनऊ।